



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 1977/ज्यैष्ठ 11, 1899

No. 176]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 1977/JYAISTHA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st June 1977

G.S.R. 259(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 73/77-Central Excises, dated the 30th April, 1977, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred seventy five rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad-valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 98/77 CE]

B. PROSAD, Under Secy.

## राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पादक-शुल्क

नई दिल्ली, 1 जून, 1977

सा० का० नि० 259(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंककारी विभाग (राजस्व पक्ष) की तारीख 30 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना स० 73 77-1.0 उ० शु० को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद स० 1 उपमद स० (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्य अनुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए दो सौ पचहत्तर रुपये प्रति क्विंटल मूल्य एतद्वारा नियत करती है।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी।

[स० 98 77—सी ई]

भुवनेश्वर प्रसाद, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977